



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2662]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937

No. 2662]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

**का.आ. 3348(अ).—** केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 की धारा 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 जून, 2015 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 36.98 हेक्टर (लगभग) या 91.38 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विहित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त करना है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 36.98 हेक्टर (लगभग) या 91.38 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार के अर्जन करने की, अपने आशय की सूचना देती है ;

**टिप्पण 1:** इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी -1(ई)।।।।/जेआर/920- 0815, तारीख 18 अगस्त, 2015 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग) कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

**टिप्पण 2:** उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :-

अर्जन की बाबत आपत्तियां:-

"8.(1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के अर्थान्त यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।"

**टिप्पण 3:** केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 जून, 1983 द्वारा प्रकाशित सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची  
हिन्दुस्थान लालपेठ एक्सपेंशन ओपनकास्ट माईन  
चंद्रपुर क्षेत्र  
जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक संख्या सी -1(ई)।।।/जेआर/920- 0815, तारीख 18 अगस्त, 2015)

सभी अधिकार :

| क्रम सं. | वन का नाम                    | कम्पार्टमेंट संख्या | तहसील    | जिला     | क्षेत्रफल हेक्टर में | टिप्पणियां |
|----------|------------------------------|---------------------|----------|----------|----------------------|------------|
| 1.       | सरकारी वन<br>(वेस्टर्न ज़ोन) | 485                 | चंद्रपुर | चंद्रपुर | 35.79                | भाग        |
| 2.       | डीफोरेस्टेड<br>एरिया         | 485                 | चंद्रपुर | चंद्रपुर | 1.19                 | भाग        |
| कुल :    |                              |                     |          |          | 36.98                |            |

कुल क्षेत्रफल : 36.98 हेक्टर (लगभग)

या 91.38 एकड़ (लगभग)

अर्जन क्षेत्र के भीतर वन भूमि - कम्पार्टमेंट संख्या 485 भाग।

सीमा वर्णन :

- क - ख : रेखा बिन्दु 'क', वन कम्पार्टमेंट संख्या 485 से आरंभ होती है और विद्यमान सभी अधिकार की सीमा रेखा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख-ग-घ-ङ.: रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्या 485 से होकर तथा बिन्दु 'ग' - 'घ' से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ङ.' पर मिलती है।
- ड.- क : रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्या 485 में विद्यमान सभी अधिकार की सीमा रेखा के साथ लगकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

(फा. सं. 43015/1/2015- पीआरआईडब्ल्यू - । )

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2015

**S.O. 3348(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1533 (E), dated the 1<sup>st</sup> April, 2015, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11<sup>th</sup> June, 2015, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 36.98 hectares (approximately) or 91.38 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire all rights in or over the land measuring 36.98 hectares (approximately) or 91.38 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number C-1(E)III/JR/920-0815, dated the 18<sup>th</sup> August, 2015 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District -Chandrapur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra).

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows:-

#### Objections to Acquisition.-

“8.(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S. O. 2519, dated the 27<sup>th</sup> May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11<sup>th</sup> June, 1983.

### SCHEDULE

Hindusthan Lalpeth Expansion Opencast Mine

Chandrapur Area

District Chandrapur (Maharashtra)

( Plan bearing number C-1(E)III/JR/920-0815, dated the 18<sup>th</sup> August, 2015).

All Rights :

| Sl. No. | Name of forest                   | Compartment number | Tahsil      | District   | Area in hectares | Remarks |
|---------|----------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|---------|
| 1.      | Government Forest (Western Zone) | 485                | Chandra-pur | Chandrapur | 35.79            | Part    |
| 2.      | Deforested Area                  | 485                | Chandra-pur | Chandrapur | 1.19             | Part    |
| Total   |                                  |                    |             |            | 36.98            |         |

Total area : 36.98 hectares (approximately)

or 91.38 acres (approximately)

Forest land within acquisition area : - Compartment number 485 Part.

Boundary Description:

A – B : Line starts from Point ‘A’ in forest compartment number 485 and passes along the existing all right area and meets at Point ‘B’.

B-C-D-E : Line passes through forest compartment number 485 and passes nearby Point ‘C’ – ‘D’ and meets at Point ‘E’.

E – A : Line passes along the existing all right area in forest compartment number 485 and meets at starting Point ‘A’.

[F. No. 43015/1/2015- PRIW – I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.